

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439]

[नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1966/पौष 7, 1888

No. 439]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 1966/PAUSA 7, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 1966

S.O. 4032.—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the State Government, hereby designates the District Collector of each of the Districts in the State of Kerala as the District Election Officer of the District of which he is the District Collector.

[No. 508/KL/66.]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

(1755)

